



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 22.11.2020

1-थाना सेक्टर 58 पुलिस व गौ तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड मे 25 हजार रूपये का इनामी गौ तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0, 01 कीपैड मोबाइल, गौवध मे प्रयुक्त उपकरण व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 21.11.2020 को थाना सेक्टर 58 पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर नवादा सेक्टर 62 नोएडा के पास हुई मुठभेड़ में 25 हजार रूपये का इनामी बदमाश ताहिर पुत्र शेर अली निवासी ग्राम भारतल सिरसी जनपद संम्भल वर्तमान पता-हाजी बन्दु का किराये का मकान नये बस अड्डे के पास गली नं0- 3 इस्लाम नगर कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद घायल/ गिरफ्तार। दो बदमाश मौके अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहे है। बदमाश के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, एक तमंचा .315 बोर एक खोखा कारतूस .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोबाइल कीपैड व गौवध मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद हुए है। अभियुक्त द्वारा एनसीआर क्षेत्र मे गौवध करना स्वीकार किया गया है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

ताहिर पुत्र शेर अली निवासी ग्राम भारतल सिरसी जनपद संम्भल वर्तमान पता-हाजी बन्दु का किराये का मकान नये बस अड्डे के पास गली नं0-3 इस्लाम नगर कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद(घायल)

### **आपराधिक इतिहास ताहिर-**

- 1.मु0अ0सं0-571/2020 धारा 8/5/3 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना सेक्टर-58, नोएडा
2. मु0अ0सं0-298/20 धारा 379 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

3. मु0अ0सं0-594/2020 धारा-307 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा

4. मु0अ0सं0-596/2020 धारा-25/27 आयुध एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पेलण्डर प्लस डीएल 5 एसएएम 8788
2. एक तमंचा .315 बोर एक खोखा कारतूस .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. एक दाब, दो छुरा एक छुरी ,एक सीरीज, 4 सुई व दो शीशी नशे की
4. एक मोबाइल फोन सैमसंग कीपैड

**2-थाना जारचा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये**

**6000 रुपये, 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 03 जोड़ी कुंडल पीली धातु, एक ओम पीली धातु के बरामद ।**

दिनांक 21.11.2020 को थाना जारचा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो 1.सुनील पुत्र रणवीर निवासी ग्राम ककराना थाना धौलाना जिला हापुड़ 2. इकराम पुत्र बिंदु निवासी ग्राम ककराना थाना धौलाना जिला हापुड़ को चौना बार्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से चोरी किये गए 6000 रुपये, 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 03 जोड़ी कुंडल पीली धातु, एक ओम पीली धातु का बरामद हुए है ।

### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. सुनील पुत्र रणवीर निवासी ग्राम ककराना थाना धौलाना जिला हापुड़
2. इकराम पुत्र बिंदु निवासी ग्राम ककराना थाना धौलाना जिला हापुड़

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

- 1.मु0अ0स0 253/20 धारा 380,411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0254/20 धारा 380,411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. चोरी के 6000 रुपये

2. 02 जोड़ी पाजेब सफेद धातु
3. 03 जोड़ी कुंडल पीली धातु
4. एक ओम पीली धातु

**3- थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी /ठगी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2लाख10 हजार170 रुपये नगद, 02 कार ,14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप,11 क्रेडिट कार्ड, 02 चैकबुक,02 पासबुक,04 सिम कार्ड, 02 पैनकार्ड ,02 आधार कार्ड,01मतदाता परिचय पत्र बरामद।**

दिनांक 21.11.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व ठगी करने वाले 05 अभियुक्तों 1. मुकुल शर्मा पुत्र नरेन्द्र कुमार शर्मा 2. सचिन शर्मा पुत्र नरेन्द्र सिंह शर्मा 3. संजय वाजपेयी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश वाजपेयी 4. मोहित पुत्र धरमवीर 5. सोनू पुत्र नारायण शर्मा एसजेएम कट छिजारसी नोएडा से गिरफ्तार किये गये है।अभियुक्तों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 11 क्रेडिट, 02 चैकबुक, 02 पासबुक, 04 सिम कार्ड , 02 पैनकार्ड, 02 आधार कार्ड, 01 मतदाता परिचय पत्र ,2 लाख 10 हजार 170 रुपये नगद, एक लैपटॉप व दो कार बरामद की गई है।

अभियुक्त जनता के बारे में आनलाईन सर्विस प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट से जानकारी एकत्रित कर उनके पास बीमा एजेन्ट बनकर लोन कराने को लेकर फोन करते थे और उन्हें बीमा की मेच्योरिटी और बीमा के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देकर अपने अकाउन्ट में पैसे डलवाकर धोखाधड़ी कर ठगी करने काम करते थे।

### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. मुकुल शर्मा पुत्र नरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी मलिन बस्ती कैलाश हास्पिटल के पीछे मेरठ रोड गाजियाबाद स्थाई निवासी ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद।
2. सचिन शर्मा पुत्र नरेन्द्र सिंह शर्मा निवासी हंस कालोनी गली नं0 1 हंस स्कूल के पास थाना मुरादानगर गाजियाबाद।
3. संजय वाजपेयी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश वाजपेयी निवासी ए-124 नन्दराम पार्क उत्तम नगर थाना बिंदापुर नई दिल्ली।
4. मोहित पुत्र धरमवीर निवासी ग्राम सुनारिया तालाब के पास थाना रोहतक जिला रोहतक हरियाणा वर्तमान पता एच-146 गुरूद्वारा के सामने न्यू सीलमपुर दिल्ली

5. सोनू पुत्र नारायण शर्मा निवासी म0न0 106 सेक्टर 2 एच वसुंधरा गाजियाबाद

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 908/20 धारा 406/420/467/468/471/34 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 02 कार 1. होण्डा इमेज रजि0 नम्बर एचआर 55 ए बी 9988 व होण्डा सिटी रजि0 डीएल 3 सीबी ई 2097 सीजशुदा (धारा 207 एमवी एक्ट)
2. 14 मोबाइल फोन
3. 2 लाख 10 हजार 170 रुपये नगद बरामद
4. एक लैपटॉप
5. 11 क्रेडिट
6. 02 चैकबुक
7. 02 पासबुक
8. 04 सिम कार्ड
9. 02 पैनकार्ड
10. 02 आधार कार्ड
11. 01 मतदाता परिचय पत्र

### **4- थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 22.11.2020 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 333/20 धारा 420/ 467/468/ 471/408/386/120 बी/504/506 भादवि थाना इकोटेक -3 के वांछित अभियुक्तो 1. रजनीश नागर पुत्र सूरजभान निवासी बडा मौहल्ला खानपुर एक्टेन्सन दिल्ली मूल निवासी ग्राम इमलिया थाना इकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर 2. सुनील नागर पुत्र सूरजभान निवासी बडा मौहल्ला खानपुर एक्टेन्सन दिल्ली मूल निवासी ग्राम इमलिया थाना इकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर को बडा मौहल्ला खानपुर एक्सटेंशन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

## अभियुक्तों का विवरण-

1. रजनीश नागर पुत्र सूरजभान निवासी बडा मौहल्ला खानपुर एक्टेन्सन दिल्ली मूल निवासी ग्राम इमलिया थाना इकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर
2. सुनील नागर पुत्र सूरजभान निवासी बडा मौहल्ला खानपुर एक्टेन्सन दिल्ली मूल निवासी ग्राम इमलिया थाना इकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर

## आपराधिक इतिहास का विवरण-

### अभियुक्त रजनीश नागर

1. मु0अ0सं0 333/20 धारा 420/467/468/471/408/386/120बी/504/506 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 271/18 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना ECONOMIC OFFENCES WING EOW DELHI
3. मु0अ0सं0 241/20 धारा 406 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार

### अभियुक्त सुनील नागर

1. मु0अ0सं0 333/20 धारा 420/467/468/471/408/386/120बी/504/506 भादवि थाना इकोटेक III गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 271/18 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना ECONOMIC OFFENCES WING EOW DELHI
3. मु0अ0सं0 241/20 धारा 406 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार

## 5- थाना कासना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.11.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 258/2020 धारा 304/323/504 भादवि के वांछित अभियुक्त अवधेश पुत्र कालीचरण निवासी हरनोट भोजपुर थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़ को कासना बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

## अभियुक्त का विवरण-

अवधेश पुत्र कालीचरण निवासी हरनोट भोजपुर थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़

## **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0- 258/2020 धारा 304/323/504 भादवि थाना कासना

### **6- थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा अमानत में ख्यानत करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 07 लाख 87 हजार 755 रूपये व क्रेटा कार बरामद।**

दिनांक 21.11.2020 को वादी श्री सन्दीप मित्तल द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 20.11.2020 को मै अपनी गाडी डीएल 05 सीपी 5577 (वाइट क्रेटा) चालक विक्की के साथ सेक्टर 60 बी-59 नोएडा मे आया था, मेरी गाडी के अदर 8 लाख नकद तथा जरुरी कागजात थे। मै अपने दोस्त के पास से लौटकर आया तो मेरा चालक विक्की गाडी को लेकर चला गया था ।

प्राप्त सूचना पर थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 22.11.2020 को अमानत मे खयानत करने वाले वांछित अभियुक्त विक्की पुत्र राजेन्द्र निवासी वन्थला पेट्रोल पम्प के सामने ऋषिपाल का मकान थाना टीला मोड गाजियाबाद को मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर-59 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 7,87,755/- (07 लाख 87 हजार 755) रूपये व क्रेटा कार बरामद की गई है।

### **अभियुक्त का विवरण-**

विक्की पुत्र राजेन्द्र निवासी वन्थला पेट्रोल पम्प के सामने ऋषिपाल का मकान थाना टीला मोड गाजियाबाद

### **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 592/2020 धारा 406, भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. क्रेटा कार
2. 07 लाख 87 हजार 755 रूपये नकद

**7- थाना जेवर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले दो चोर गिरफ्तार, कब्जे से कपडे का गट्टर जिसमें 25**

**ऊनी खेस (चादर), चोरी मे प्रयुक्त लोडिंग रिक्शा, 350 रुपये नगद व एक अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 21.11.2020 को श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र स्व० श्री कामचन्द गोयल निवासी मौहल्ला घोडीवाला कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान का ताला तोडकर कपडे के गट्टर चोरी कर ले गये, प्राप्त सूचना के आधार पर थाना जेवर पर मु०अ०सं० 545/2020 धारा 457,380 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 22.11.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले दो अभियुक्तो 1. नासिर पुत्र इनसाद 2. इमरान पुत्र खुर्शेद को प्रज्ञान स्कूल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कपडे का गट्टर जिसमें 25 ऊनी खेस (चादर) व एक कपडे के गट्टर के बिक्री के शेष 350 रुपये नगद, चोरी में प्रयुक्त लोडिंग रिक्शा व एक अवैध चाकू बरामद हुए है।

### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. नासिर पुत्र इनसाद निवासी मौहल्ला रावलपट्टी कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. इमरान पुत्र खुर्शेद निवासी मौहल्ला रावलपट्टी कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं० 545/2020 धारा 457,380 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी विवरण-**

1. कपडे का गट्टर जिसमें 25 ऊनी खेस (चादर)
2. एक कपडे के गट्टर के बिक्री के शेष 350 रुपये नगद
3. चोरी में प्रयुक्त लोडिंग रिक्शा
4. एक अवैध चाकू

**8- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 01 बदमाश गोली लगने से घायल /**

**गिरफ्तार, कब्जे से लूट की एक पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी , एक लैपटॉप , दो**

**बैग व अवैध हथियार बरामद।**

दिनांक 22.11.2020 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस की सेक्टर 57 चौराहे से सेक्टर 54 चौकी

की ओर बदमाशों से मुठभेड़ में विपिन वाल्मिकी पुत्र स्व. कमल वाल्मिकि निवासी ग्राम मोरना सेक्टर 35 थाना सेक्टर 24 गोली लगने से घायल / गिरफ्तार, एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। दिनांक 20.11.2020 को थाना बीटा 2 क्षेत्र से चैन लूट की घटना इनके द्वारा की गई थी तथा कब्जे से दिनांक 09.11.2020 को सेक्टर 58 से लूट की एक पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी, एक लैपटॉप, दो बैग व अवैध हथियार बरामद हुए हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

विपिन बाल्मिकी पुत्र स्व. कमल बाल्मिकी निवासी मदनगिर दकछिनपुरी थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली

### **आपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मुकदमा अपराध संख्या 18/ 2016 धारा 342/395/397/427/412 आईपीसी थाना फेस 2 नोएडा
2. मुकदमा अपराध संख्या 49/2016 धारा 394/411 आईपीसी थाना फेस 2 नोएडा
3. मुकदमा अपराध संख्या 143/2016 धारा 2(B)(i); 3 गैंगेस्टर एक्ट थाना फेस 2 नोएडा
4. मुकदमा अपराध संख्या 510/2018 धारा 392/411 आईपीसी थाना सेक्टर 24 नोएडा
5. मुकदमा अपराध संख्या 630/2018 धारा 41 सी आर पी सी थाना सेक्टर 39 नोएडा
6. मुकदमा अपराध संख्या 696/2020 धारा 379/411 आईपीसी थाना सेक्टर 24 नोएडा
7. मुकदमा अपराध संख्या 597/2020 धारा 392/411 आईपीसी थाना सेक्टर 58 नोएडा
8. मुकदमा अपराध संख्या 741/2020 धारा 392 आईपीसी थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक लूट की पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी
2. एक एच.पी. कंपनी का लैपटॉप मय चार्जर
3. एक भूरे रंग का लेडीज बैग
4. एक काले रंग का पिट्टू लैपटॉप बैग
5. एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ तथा 2 जिंदा कारतूस 315 बोर

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.11.2020 को यातायात माह के अंतर्गत सेक्टर 14 ए पुलिस कंट्रोल रूम में 3D विजन एनजीओ के सहयोग से यातायात कर्मियों का नेत्र परीक्षण किया गया जिसमें लगभग 250 यातायात कर्मियों का नेत्र परीक्षण किया गया तथा 7X वेलफेयर टीम व ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा कोरोना जैसी महामारी के बचाव की जानकारी देते हुए मास्क वितरित किये गये, साथ ही एनजीओ व यातायात कर्मियों के सहयोग से नोएडा गेट पर आमजन को दुर्घटनाओं से बचने हेतु यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में 7X वेलफेयर की तरफ से डॉक्टर प्रणव जे पटर, बृजेश शर्मा आदि व डीसीपी ट्रैफिक, टीआई रविन्द्र वशिष्ठ, टीआई आशुतोष तथा समस्त यातायात अधिकारी/ कर्मचारी मौजूद रहे।

## प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कोविड 19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.11.2020 को 1089 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।